

## Malden High School (मालडेन हाई स्कूल) स्कूल वापसी रात्रि सितम्बर 23, 2019--5:30-7:00शाम

मालडेन स्कूल में पुनः स्वागत है! पिछले कई हफ्तों के दौरान हमने आपके बच्चे को समझने का भरपूर आनंद लिया है और इस आगामी स्कूल वर्ष में एक साथ सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। कर्मचारी गण ने इस वर्ष के लिए इस मोटो को अपनाया है है: **आप अकेले नहीं हैं।** हमारे सभी परिवारों से सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित कर के लिए, हम आपको **सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को शाम 5:30-7:00 बजे हमारे स्कूल वापसी रात्रि रात्रि में आने का न्यौता देना चाहते हैं।** हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आयेंगे।

जब आप Malden High School पहुँचें, तो कृपया Salem St. (सालेम स्ट्रीट) पर मुख्य प्रवेश द्वार से आयें, जहाँ कर्मचारी गण और विद्यार्थी आपके स्वागत के लिए मिलेंगे। अपने बच्चे के वर्तमान कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए अपने बच्चे से जानकारी पायें। यदि आपको अपने बच्चे की कक्षाओं के बारे में जानने में कोई मदद चाहिए तो कर्मचारी और विद्यार्थी आपकी मदद करेंगे। यदि आप चाहें तो आप अपने बच्चे को साथ ला सकते हैं, हमें खुशी होगी।

हम आपको आपके विद्यार्थी के प्रत्येक शिक्षक से मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे, आप उनसे रात्रि में कभी उनकी कक्षा या शिक्षण स्थल (जिम, शॉप, आदि) पर मिल सकते हैं। इस तरह शिक्षक आपको आपके बच्चे ने जिस पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त किया है उससे सम्बंधित सूचना-सामग्री दे पायेंगे, और आप भी अपने बच्चे के शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर पायेंगे। चूँकि इन 90 मिनटों के दौरान हम कई परिवारों के आने के आशा करते हैं अतः हम विनम्रता से आपको यह याद रखने को कहेंगे कि यह आपके बच्चे के शिक्षकों से मिल पाने का एक अल्प अवधि अवसर है। शिक्षक आपसे अपनी संपर्क सूचना साझा करेंगे ताकि आप उनसे किसी कक्षा विशेष में अपने बच्चे की प्रगति और प्रदर्शन के सम्बन्ध में अधिक गहन चर्चा के लिए संपर्क कर सकें (फोन, ईमेल, या अन्य आमने-सामने की मुलाकात के जरिये)। वर्ष के दौरान शिक्षक गण आपके संपर्क में रहने को उत्सुक हैं।

हमें पूरी आशा है कि आप घर और विद्यालय के बीच मजबूत भागीदारी के निर्माण के लिए हमसे जुड़ेंगे ताकि हमारे सभी विद्यार्थी सच में स्वयं को अकेला ना समझें।

सादर,  
Chris Mastrangelo  
प्राचार्य - Malden High School